



गायिका सोनिया शर्मा ने घर से भाग कर घर-वालों की गैर-रजामंदी से करी शादी

एक हल्की-फुल्की डिबेट तो बनती है यार

"क्या यह भी किसी खाप का आतंक तो नहीं?"..."कब तक हरयाणा इन रूधिवादिताओं में जीता रहेगा।"...."कब तक हरयाणा का ये तालिबान रूप सामने आता रहेगा"..."आखिर parenthood के नाम पर ये आतंक कब तक चलता रहेगा कि बच्चों को ऐसे भाग कर शादियाँ करनी पड़ती हैं?"and so on and so on क्यों अजित अंजुम जी, क्यों रविश कुमार जी, क्यों रंजना कुमारी जी, क्यों जगमती सांगवान जी, क्यों अभिज्ञान प्रकाश जी, क्यों श्रिनिवसिन जैन जी, क्यों अंजना ॐ कश्यप जी.....एक हलकी-फुलकी डिबेट तो बनती है भाई.....है के नहीं? कर दो इसका भी मीडिया ट्रायल.....या फिर ये आपकी लॉबी (entertainment industry) से है या खाप से सम्बंधित नहीं है इसलिए सूं-सा-चुप ?

यार कुछ अजीब सा लग रहा है, मीडिया की इस केस को ले के चुप्पी पे.....वो क्या है की आदत सी हो गई ना ऐसे आतंकित कर देने वाले heading के साथ होने वाली T.V. Debates की। यार please एक हलकी-फुलकी तो हो ही जाए। कसम से किसी भी Daily Opera Soap and even Friday releases में इतने पैसे वसूल नहीं होते जितने तुम्हारी नौटंकियों से होते हैं but दुःख तब होता है जब तुम लोग इन नौटंकियों में भी partiality करते हो। ये गलत बात है, ऐसा मनोरंजन non-stop चलना चाहिए।

विशेष: इसको कोई मेरा व्यंग्य या सोनिया शर्मा की marriage का मजाक उड़ाना न समझे (दरअसल मैं तो खुश हूँ कि वो मीडिया ट्रायल ने बख्श दी), actually ये मेरे हृदय की करुणा है ऐसे मामलों में मीडिया की partiality को ले के और एक शिकायत ऐसी नौटंकियों की आदत दाल चुके मीडिया से कि एक और नौटंकी रचने को इतना अच्छा platform miss कर गए। काश खाप को कहीं से मीडिया इस केस में भी जोड़ पाता तो एक और नौटंकी देखने को मिल जाती। Bad luck better next time!

Source Reference: <http://www.youtube.com/watch?v=8UGOxPh4YDc>

Dated: 25/09/2013

Convener: Phool Kumar Malik

Nidana Heights